



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़ 1941 (श10)

(सं0 पटना 845) पटना, सोमवार, 22 जुलाई 2019

सं0 सं0 3प/बी०आर०जी०एफ०(नीति)-17-02/2014/4599/पं0रा0,  
पंचायती राज विभाग

संकल्प

19 जुलाई 2019

विषय:- पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तकनीकी एवं प्रशासनिक शक्तियों की वित्तीय अधिसीमा की वृद्धि एवं तकनीकी शक्तियों के लिए प्रत्यायोजित नामित पदाधिकारी के नाम में संशोधन के संबंध में।

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-9026 दिनांक-30.10.2017 (मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 28.10.2017 में मद संख्या-04 के रूप में स्वीकृत) के द्वारा विभाग के नियंत्रणाधीन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की वित्तीय अधिसीमा के अन्तर्गत शक्तियों का प्रत्यायोजन निम्नवत् किया गया था:-

क्र०	पदाधिकारी का नाम	शक्ति स्वरूप	राशि सीमा
1	जिला पदाधिकारी	प्रशासनिक	बीस करोड़ रु0 तक
2	उप विकास आयुक्त	प्रशासनिक	एक करोड़ रु0 तक
3	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	प्रशासनिक	तीस लाख रु0 तक
4	ग्राम पंचायत	प्रशासनिक	पन्द्रह लाख रु0 तक
5	अधीक्षण अभियंता	तकनीकी	बीस करोड़ रु0 तक
6	कार्यपालक अभियंता	तकनीकी	एक करोड़ रु0 तक
7	सहायक अभियंता	तकनीकी	तीस लाख रु0 तक
8	कनीय अभियंता	तकनीकी	पन्द्रह लाख रु0 तक

2. मुख्यमंत्री निश्चय योजनाओं के कार्यान्वयन में ऐसा पाया गया है कि अनेको योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलित राशि 15 लाख रुपये से अधिक होती है।

अतएव विभाग द्वारा नियुक्त किए जा रहे तकनीकी सहायकों जिनकी शैक्षणिक योग्यता कनीय अभियंता के समरूप है, के तकनीकी शक्तियों के लिए प्रत्यायोजित कनीय अभियंता के नाम के साथ तकनीकी सहायकों के नाम को जोड़ने एवं ग्राम पंचायतों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की वित्तीय अधिसीमा में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

3. अतः पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधि से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति को निम्न रूपेण प्रत्यायोजित की जाती है:-

क्र०	पदाधिकारी का नाम	शक्ति स्वरूप	राशि सीमा
1	जिला पदाधिकारी	प्रशासनिक	बीस करोड़ रु० तक
2	उप विकास आयुक्त	प्रशासनिक	एक करोड़ रु० तक
3	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	प्रशासनिक	तीस लाख रु० तक
4	ग्राम पंचायत	प्रशासनिक	बीस लाख रु० तक
5	अधीक्षण अभियंता	तकनीकी	बीस करोड़ रु० तक
6	कार्यपालक अभियंता	तकनीकी	एक करोड़ रु० तक
7	सहायक अभियंता	तकनीकी	तीस लाख रु० तक
8	कनीय अभियंता/तकनीकी सहायक	तकनीकी	बीस लाख रु० तक

4. उपर्युक्त पूर्व निर्गत संकल्प ज्ञापांक-9026 दिनांक-30.10.2017 में ग्राम पंचायत, कनीय अभियंता/तकनीकी सहायक की प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृति की वित्तीय शक्ति की अधिसीमा की वृद्धि की जा रही है, एवं विभागीय तकनीकी सहायकों को कनीय अभियंता के अनुरूप शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है। संकल्प के शेष प्रावधान पूर्ववत् रहेंगे।

इस प्रस्ताव पर दिनांक 21.06.2019 को मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश से,  
अमृत लाल मीणा,  
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 845-571+300-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>